

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 448 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई 2019 — आषाढ़ 28, शक 1941

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 3 जुलाई 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-7/2009/1/5/1766. — इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2018/1/5 दिनांक 28 सितंबर 2018 द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के समस्त शासकीय कार्यालयों तथा संस्थाओं हेतु सामान्य, सार्वजनिक एवं ऐच्छिक अवकाश घोषित किए गए हैं. उक्त अधिसूचना के (ब) ऐच्छिक अवकाश की सूची के सरल क्रमांक 32 में विश्व आदिवासी दिवस, 9 अगस्त पर घोषित ऐच्छिक अवकाश को सामान्य अवकाश में परिवर्तित करने तथा छठ पूजा, 02 नवंबर को सामान्य अवकाश घोषित किए जाने का निर्णय लिया गया है. फलतः उक्त अधिसूचना में (अ) सामान्य अवकाश की सूची में निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए:-

| क्रमांक | अवकाश का नाम       | घोषित अवकाश के दिवसों की संख्या | ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तारीख | राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत्) | सप्ताह का दिन |
|---------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|---------------|
| (1)     | (2)                | (3)                             | (4)                                | (5)  | (6)           |
| 9ए      | विश्व आदिवासी दिवस | एक                              | 9 अगस्त                            | श्रावण 18, 1941                            | शुक्रवार      |
| 16ए     | छठ पूजा            | एक                              | 2 नवंबर                            | कार्तिक 11, 1941                           | शनिवार        |

2. अतएव राज्य शासन एतद्वारा दिनांक 09 अगस्त 2019, दिन शुक्रवार को “विश्व आदिवासी दिवस” एवं दिनांक 02 नवंबर 2019, दिन शनिवार को “छठ पूजा” हेतु सामान्य अवकाश घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. राठिया, उप-सचिव.